



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 1979/आषाढ़ 27, 1901

No. 228]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1979/ASADHA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1979

सा. का. नि. 443(अ).—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जान पर कि निर्वाचक निकाय अर्थात् "कोचीन निगम", अपने नियंत्रण से परे कारणों से कोचीन पत्तन के पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के लिए एक न्यासी का निर्वाचन, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 266 (ई.), तारीख 26 मार्च, 1979 में उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहा है, यह निदर्श देती है कि निर्वाचन 31 अगस्त, 1979 को या उसके पूर्व किया जाएगा।

[फा. सं. पी. टी. बी.-42/78]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th July, 1979

G.S.R. 443(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Major Port Trusts Act,

1963 (38 of 1963), the Central Government, having been satisfied that the electing body namely, the "Corporation of Cochin" has failed, for reasons beyond its control, to elect a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Cochin within the period specified therefor in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 266(E), dated the 26th March, 1979, hereby directs that the election shall be held on or before the 31st August, 1979.

[F. No. PTB-42/78]

सा. का. नि. 444 (अ).—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (8) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कोचीन पत्तन के न्यायियों के मण्डल में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री सी. चौरयन को, जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्यासी के रूप में नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 304 (ई), दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नीलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 13 के बाद निम्नीलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएं, अर्थात् :—

“14. श्री सी. चेरियन, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ।

—समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि ।”

[फा. सं. पी. टी. बी.-42/78]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

**G.S.R. 444(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri C. Cherian, Member of Executive Committee of Marine Products Export Development Authority, representing the Marine Products Export Development Authority, on the Board of Trustees of the Port of Cochin, and

makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G.S.R. 304(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 13 and the entries relating thereto, the following Serial Number and entries shall be inserted, namely :—

“14. Shri C. Cherian, Member of Executive Committee of Marine Products Export Development Authority.

—Representing the Marine Products Export Development Authority.”

[F. No. PTB-42/78]

D. K. JAIN, Jt. Secy.